



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 18.11.2020

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में गैंगस्टर, माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस कमिश्नर की एक और बड़ी कार्यवाही 3 करोड़ 50 लाख की अचल संपत्ति की गई कुर्क-वर्तमान तक पुलिस कमिश्नर के द्वारा लगभग 44 करोड़ रूपए की संपत्ति को किया गया है कुर्क।

जनपद गौतमबुद्धनगर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के उपरान्त आज दिनांक 18.11.2020 को पुलिस आयुक्त आलोक सिंह द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री उ0प्र0 के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर/ माफियाओं एवं अपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

पुलिस कमिश्नर द्वारा अब तक लगभग 44 करोड़ रुपए की सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जा चुकी है।

पुलिस कमिश्नर द्वारा इस श्रृंखला में आज एक बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपराधिक गतिविधियों से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों को कुर्क किया गया है जिसमें-

दिनांक 18.11.2020 को संजय भाटी पुत्र रामपाल निवासी मोमनाथल थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर की पत्नी वीरवती के नाम ग्राम मोमनाथल स्थित खाता संख्या 198 भूमि गाटा संख्या 320 रकबा 0-3900 हेक्टेयर को मु0अ0स0 1405/2019 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 03 करोड 08 लाख है। एक लाईसेन्सी पिस्टल कीमत लगभग 12 लाख रूपये, एक पोपलेन मशीन कीमत लगभग 30 लाख रूपये तथा एक मोटर साइकिल कीमत लगभग 25 हजार रूपये है। कुल सम्पत्ति की कीमत लगभग 03 करोड 50 लाख रूपये है।

कमिश्नर प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त द्वारा सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही की गयी है, जो भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरुद्ध जारी रहेगी।



प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर में यातायात को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में जनपद की यातायात पुलिस निरंतर चला रही है जागरूकता कार्यक्रम।

उत्तर प्रदेश सरकार के यातायात माह के तहत पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की यातायात पुलिस बृहद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम कर रही है संचालित वाहन चालकों को बड़े स्तर पर किया जा रहा है जागरूक-

जनपद गौतम बुद्ध नगर के यातायात को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के यातायात माह के तहत पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की यातायात पुलिस के अधिकारी एवं पुलिस टीम के द्वारा बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए स्कूली छात्र-छात्राओं एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि जनपद के यातायात को और अधिक सुगम बनाया जा सके। इस कड़ी में जनपद की यातायात पुलिस के द्वारा यातायात माह के अवसर पर भारतीय आदर्श वैदिक बालिका इंटर कॉलेज तिलपता में एलईडी दिखाकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी के साथ-साथ शपथ भी दिलाई गई। यातायात माह के अवसर पर डीप मेमोरियल इंस्टीट्यूट देवला ग्रेटर नोएडा में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी के साथ-साथ शपथ दिलाई गई। डीसीपी यातायात गणेश प्रसाद शाह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आगे भी पुलिस कमिश्नर के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार के यातायात माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।



प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की महिला पुलिस भी एक्शन में- थाना क्षेत्र फेस 2 एवं फेस 3 में महिला पुलिस अधिकारियों एवं महिला पुलिस टीम के द्वारा चलाया गया विशेष अभियान महिलाओं को किया गया जागरूक।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में जनपद गौतम बुद्ध नगर में महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट की महिला पुलिस भी पीछे नहीं है। महिला पुलिस के अधिकारी एवं महिला पुलिस टीम के द्वारा निरंतर सघन गश्त किया जा रहा है ताकि महिलाओं के प्रति होने

वाले अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। इस कड़ी में दिनांक 18.11.2020 को पुलिस कमिश्नरेट की महिला पुलिस अधिकारियों एवं महिला पुलिस टीम के द्वारा थाना फेस टू एवं थाना फेस श्री में सगन चेकिंग अभियान संचालित किया गया। महिला पुलिस टीम के द्वारा पैदल गस्त करते हुए जहां एक और महिलाओं के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है वहीं दूसरी ओर महिलाओं को जागरूक करने का कार्य भी महिला पुलिस टीम के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि सभी महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक रहें। महिला पुलिस टीम के द्वारा महिलाओं को कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित किया गया है।



1-थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18-11-2020 को थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त विशाल शाह पुत्र रविन्द्र शाह निवासी 296 उत्तरांचल नगर नन्द ग्राम मरियम नगर मोहननगर गाजियाबाद, सम्बन्धित मु0अ0स0 624/20 धारा 354घ,506,509 भादवि 11/12 पोक्सो अधिनियम को ग्राम सदरपुर कट के पास थाना क्षेत्र सेक्टर 39 से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.विशाल शाह पुत्र रविन्द्र शाह निवासी 296 उत्तरांचल नगर नन्द ग्राम मरियम नगर गाजियाबाद

अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0स0 624/2020 धारा 354घ,506,509 भादवि 11/12 पोक्सो अधिनियम ।